

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० ८७] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई ८, १९७०/वैशाख १८, १८९२

No. 87] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 1970/VAISAKHA 18, 1892

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

---

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(Post and Telegraphs Boards)

NOTIFICATION

*New Delhi, 5th May 1970*

G.S.R. 774.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraphs Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (seventh amendment) Rules, 1970.
- (2) They shall come into force on the 15th May, 1970.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951,—in rule 434, in Section III relating to "Scale of charges for departmental exchange connections", in clause (i) relating to connections within the local area, for the existing Table under "(a) Measured rate system" the following Table shall be substituted, namely—

| "Exchanges                             |        | Rates of quarterly rental and call fees.               |                                                                |                                                                    |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                        | Rental | Fees for the first 150 local calls during the quarter. | Fees per local call for the next 600 calls during the quarter. | Fees per local call for calls beyond 750 calls during the quarter. |
|                                        | Rs.    |                                                        | Paise                                                          | Paise                                                              |
| (1) Calcutta, Bombay Delhi and Madras. | 90     | Allowed free of charge.                                | 15                                                             | 20                                                                 |
| (2) All other exchanges                | 75     | Allowed free of charge                                 | 15                                                             | 20                                                                 |

[No. 7-34/70-R]

G. A. CORNELIUS,

Senior member (Telecom, Operations),  
and *Ex Officio* Addl Secy.

संचार विभाग

(डाक तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 5 मई, 1970

सा० का० नि० 774—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय तार नियम, 1951 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम, बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) ये नियम भारतीय तार (सातवी संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 15 मई, 1970 को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय तार नियम 1951 में “ विभागीय एक्सचेंज कनेक्शनों के लिए प्रभार का माप-मान” से सम्बन्ध अनुभाग 3 में नियम 434 में, स्थानीय क्षेत्र के भीतर कनेक्शनों से सम्बन्ध खण्ड (i) में (क) मापित धर पद्धति के नीचे विदेयमान सारक्षी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

| एक्सचेंज                          |                                                    | तिमाही भाटक और काल शुल्क की दरें                            |                                                                        |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| भाटक                              | तिमाही के दौरान प्रथम 150 स्थानीय कालों के लिए फीस | तिमाही के दौरान अगली 600 कालों के लिए प्रति स्थानीय काल फीस | तिमाही के दौरान 750 कालों से ऊपर की कालों के लिए प्रति स्थानीय काल फीस |  |
|                                   | रुपये                                              | पैसे                                                        | पैसे                                                                   |  |
| 1— कलकत्ता बम्बई दिल्ली और मद्रास | 90                                                 |                                                             |                                                                        |  |
|                                   | मुफ्त                                              | 15                                                          | 20                                                                     |  |
| 2—सभी अन्य एक्सचेंज               | 75                                                 | 15                                                          | 20                                                                     |  |
|                                   | मुफ्त                                              |                                                             |                                                                        |  |

[सं० 7-34/70-प्रार०]

सी० ए० कोर्नीलियस,  
ज्येष्ठ सदस्य (दूर संचार प्रचालन)

